

विद्याभवन बालिका विद्यापीठ लखीसराय

कक्षा - षष्ठ

दिनांक -30 - 08- 2021

विषय -हिन्दी

विषय शिक्षक -पंकज कुमार

एन, सी, ई, आरटी, पर आधारित

सुप्रभात बच्चों आज पठ -17 नौकर नामक शीर्षक के बारे में अध्ययन करेंगे।

प्रश्न-1

नौकर' पाठ के लेखक कौन हैं?

- (a) महात्मा गांधी जी
  - (b) अनु बंद्योपाध्याय
  - (c) विष्णु प्रभाकर
  - (d) गुणाकर मुले
- 

प्रश्न 2

गांधी जी पैदल क्यों चलते थे?

- (a) पैसा बचाने के लिए
  - (b) स्वस्थ रहने के लिए
  - (c) उनको डॉक्टर ने सलाह दी थी
  - (d) इनमें से कोई नहीं
- 

प्रश्न 3

साबरमती आश्रम किस राज्य में है?

- (a) बिहार
- (b) बंगाल

- (c) गुजरात  
(d) ओडिशा
- 

प्रश्न -4

गांधी जी सवेरे की प्रार्थना के बाद कौन-सा कार्य करते थे?

- (a) सब्जियों का लाना  
(b) सब्जियों का छीलना  
(c) सब्जियाँ काटना  
(d) सब्जियाँ पकाना
- 

प्रश्न -5

गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीका में कौन ठहरा था?

- (a) रामकृष्ण गोखले  
(b) गोपाल कृष्ण गोखले  
(c) सरदार बल्लभ भाई पटेल  
(d) नेताजी सुभाष चंद्र बोस
- 

(1)

आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर-चाकर करते हैं। जिस ज़माने में वे बैरिस्टरी से हज़ारों रुपये कमाते थे, उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बँटाते थे। इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन या मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। वह चक्की को ठीक करने में भी कभी-कभी घंटों मेहनत करते थे।

प्रश्न 1

इस गद्यांश में किस व्यवसाय का उल्लेख हुआ है?

- (a) इंजीनियरिंग का
  - (b) डॉक्टरी का
  - (c) बैरिस्टरी का
  - (d) अन्य
- 

प्रश्न 2

बैरिस्टर रहते हुए भी गांधी जी कौन-सा काम किया करते थे?

- (a) आश्रम का काम
  - (b) सफ़ाई का काम
  - (c) बरतन धोने का काम
  - (d) आटा पीसने का काम
- 

प्रश्न 3

चक्की चलाने में गांधी जी का हाथ कौन बँटाता था?

- (a) कस्तूरबा गांधी
  - (b) लड़के
  - (c) दोनों
  - (d) इनमें कोई नहीं
- 

(2)

कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद दी। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोईघर में जाकर सब्जियाँ छीलते थे। रसोईघर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार

एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उसे समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए।

प्रश्न 1

गांधी जी रसोईघर में जाकर क्या करते थे?

- (a) सब्जियाँ बनाते थे।
  - (b) सब्जियाँ काटते थे।
  - (c) सब्जियाँ खाते थे।
  - (d) सब्जियाँ छीलते थे।
- 

प्रश्न 2

गांधी जी अपने साथियों को किस बात पर आड़े हाथों लेते थे?

- (a) गांधी जी का कहना न मानने पर
- (b) काम न करने पर
- (c) रसोईघर की सफ़ाई न करने पर
- (d) देर तक सोने पर

गृहकार्य - प्रश्नों के उत्तर दीजिए।